



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1930 (श0)  
(सं0 पटना 593) पटना, मंगलवार 30 दिसम्बर 2008

सं० 3ए-वे०पु०-01/08/11070

वित्त विभाग

संकल्प

30 दिसम्बर 2008

विषय : राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति हेतु वेतन समिति का गठन।

राज्य के कर्मियों/पेंशनधारियों को केन्द्रीय कर्मियों/पेंशनधारियों की भाँति पुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन की स्वीकृति हेतु वेतन समिति का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगा:-

1. **श्री शुभकीर्ति मजूमदार** : अध्यक्ष  
प्रधान सचिव,  
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना
  2. **श्री आमिर सुबहानी** : सदस्य  
सचिव,  
कार्मिक एवं प्रशा० सुधार विभाग,  
बिहार, पटना
  3. **श्री अरुनीश चावला** : सदस्य-सचिव  
अपर वित्त आयुक्त,  
वित्त विभाग, बिहार।
2. उपर्युक्त पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त वेतन समिति का भी कार्य करेंगे। इस समिति के लिए सचिवालय सहायता, निधि आदि की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा की जाएगी।
3. समिति निम्नांकित विषयों पर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी:-
- (i) केन्द्रीय षष्ठम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन स्वीकृत करने के संबंध में अनुशंसा।

- (ii) केन्द्रीय षष्टम् वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय पेंशनधारियों की भौति राज्य के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में अनुशंसा।
- (iii) केन्द्रीय षष्टम् वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन अमेलन (merger of pay scales) तथा पदों के उन्नयन (upgradation) के संबंध में अनुशंसा।
- (iv) ए0सी0पी तथा राज्य के कर्मियों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे भत्तों आदि के पुनरीक्षण के विषय में अनुशंसा।
4. समिति उपरोक्त विन्दुओं के विषय में अनुशंसा करते समय राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधनों, वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखेगी।
5. अपनी अनुशंसाओं को गठित करने के लिए समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी और इसके लिए आवश्यक सूचना एकत्र करेगी।
6. समिति अपना प्रतिवेदन 31.03.09 तक समर्पित करेगी।
7. वेतन समिति की अनुशंसा पर विचार कर सरकार वेतन पुनरीक्षण के विषय पर समुचित निर्णय लेगी।
- आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री व राज्य मंत्री के आप्त सचिवों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/निबंधक, उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित किया जाय।
- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
नवीन कुमार,  
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 593-571+1000-डी0टी0पी0।